



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1987]

No. 1987]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 2009/अग्राहायण 9, 1931

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 2009/AGRAHAYANA 9, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3050(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पंत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1141(अ), तारीख 15 मई, 2008 में उन संबंधित बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर लिया गया है अथवा करने से लोप कर दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों, पुलिस बानों और गाँवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर भूमि अर्जन

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	भूखण्ड	जिला	तालुक	पुलिस बाना	गाँव का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) नार्थ 24 परगना जिला	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 31.000 कि.मी. से 48.533 कि.मी. तक	नार्थ 24	(1) बारासात	आमडांगा	(1) मीरहाटी (जे.एल. संख्या 66) (2) कामदेवपुर (जे.एल. संख्या 65) (3) सोनाडांगा (जे.एल. संख्या 64) (4) खालिया (जे.एल. संख्या 63) (5) खंडसरकरा (जे.एल. संख्या 61) (6) आरखाली (जे.एल. संख्या 62) (7) आमडांगा (जे.एल. संख्या 48) (8) रायपुर (जे.एल. संख्या 50) (9) रफीपुर (जे.एल. संख्या 49) (10) राहाना (जे.एल. संख्या 47) (11) उलुडांगा (जे.एल. संख्या 26) (12) साधनपुर (जे.एल. संख्या 25) (13) हिसाबी (जे.एल. संख्या 24) (14) जिराट (जे.एल. संख्या 23) (15) आधाटा (जे.एल. संख्या 20) (16) कईपुखरिया (जे.एल. संख्या 19) (17) उरला (जे.एल. संख्या 17) (18) काचिबारा (जे.एल. संख्या 16) (19) महादेवपुर (जे.एल. संख्या 12) (20) पशारडांगा (जे.एल. संख्या 10) (21) हरबाटी (जे.एल. संख्या 9) (22) राजबेरिया (जे.एल. संख्या 8)

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	मूखंड	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गाँव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
						(23) धानिया (जे.एल. संख्या 11)
						(24) बैकुण्ठपुर (जे.एल. संख्या 7)
						(25) मदनपुर (जे.एल. संख्या 12)
					हाबरा	(26) पाबदारा (जे.एल. संख्या 4)
						(27) त्रिलक्ष्यपुर (जे.एल. संख्या 3)
2	अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) नदिया जिला	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 48.533 कि.मी. से 164.584 कि.मी. तक।	नदिया	(1) कल्यानी	हरिनघाटा	(1) जागुली (जे.एल. संख्या 53)
						(2) दक्षिण ब्रह्मपुर (जे.एल. संख्या 60)
						(3) संतोषपुर (जे.एल. संख्या 56)
						(4) मोबारकपुर (जे.एल. संख्या 57)
						(5) लाउपाला (जे.एल. संख्या 43)
						(6) कपिलेश्वर (जे.एल. संख्या 54)
						(7) दीघा (जे.एल. संख्या 55)
						(8) हरिनघाटा फार्म (जे.एल. संख्या 90)
						(9) सिमहाट (जे.एल. संख्या 45)
						(10) गांगुरिया (जे.एल. संख्या 44)
						(11) मुरागाछा (जे.एल. संख्या 8)
						(12) बालिंदी (जे.एल. संख्या 7)
						(13) आयेशपुर (जे.एल. संख्या 9)
						(14) नारायणपुर (जे.एल. संख्या 10)
						(15) बिरोही (जे.एल. संख्या 4)
						(16) चंडीरामपुर (जे.एल. संख्या 5)
					चाकदह	(17) नरपतीपारा (जे.एल. संख्या 103)
						(18) जात्रापुर (जे.एल. संख्या 110)
						(19) राउतारी (जे.एल. संख्या 109)
						(20) महेश्वरपुर (जे.एल. संख्या 112)
						(21) तौतगाछी (जे.एल. संख्या 113)
						(22) खोरगाछी (जे.एल. संख्या 115)
						(23) उत्तरपाछपोता (जे.एल. संख्या 120)
						(24) जयकृष्णपुर (जे.एल. संख्या 31)
						(25) छातीमतला (जे.एल. संख्या 19)
						(26) लालपुर (जे.एल. संख्या 20)
						(27) पुंगलिया (जे.एल. संख्या 14)
						(28) पलागाछा (जे.एल. संख्या 13)
						(29) तातला (जे.एल. संख्या 12)
						(30) चंद्रपुर (जे.एल. संख्या 6)
						(31) महानाला (जे.एल. संख्या 7)
				(2) राणाघाट	गानापुर	(1) घाटीगाछी (जे.एल. संख्या 164)
						(2) पाटुली (जे.एल. संख्या 151)
						(3) दयाबाड़ी (जे.एल. संख्या 152)
					राणाघाट	(4) नासरा (जे.एल. संख्या 156)
						(5) राणाघाट (जे.एल. संख्या 155)
						(6) आइसतला (जे.एल. संख्या 114)

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	मूखंड	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गोंव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
						(7) हबीबपुर (जे.एल. संख्या 116)
						(8) दोहारपार (जे.एल. संख्या 6)
					शांतिपुर	(9) गोयालपारा (जे.एल. संख्या 72)
						(10) उदयपुर (जे.एल. संख्या 73)
						(11) नाबाला (जे.एल. संख्या 74)
						(12) बेलगरिया (जे.एल. संख्या 57)
						(13) सुकपुकुरिया (जे.एल. संख्या 58)
						(14) बेहोरिया (जे.एल. संख्या 50)
						(15) घोरालिया (जे.एल. संख्या 47)
						(16) कदमपुर (जे.एल. संख्या 59)
						(17) बाथना (जे.एल. संख्या 45)
						(18) कंदखोला (जे.एल. संख्या 43)
						(19) छोटा राणाघाट (जे.एल. संख्या 46)
						(20) गोविंदोपुर (जे.एल. संख्या 32)
						(21) पांचपोता (जे.एल. संख्या 33)
						(22) बागदिया (जे.एल. संख्या 34)
						(23) बाथानगाछी (जे.एल. संख्या 35)
				(3) कृष्णनगर	कृष्णनगर	(1) चकचापारा (जे.एल. संख्या 79)
						(2) जियोलगारी (जे.एल. संख्या 80)
						(3) दिगनगर (जे.एल. संख्या 83)
						(4) हातीशाला (जे.एल. संख्या 81)
						(5) चापरादीगनगर (जे.एल. संख्या 82)
						(6) सेनपुर (जे.एल. संख्या 119)
						(7) इटली (जे.एल. संख्या 85)
						(8) चकदीगनगर (जे.एल. संख्या 118)
						(9) दुर्गापुर (जे.एल. संख्या 117)
						(10) दक्षिण झीटकीपोता (जे.एल. संख्या 116)
						(11) बारुहुदा (जे.एल. संख्या 91)
						(12) पश्चिम भातजांगला (जे.एल. संख्या 90)
						(13) कृष्णनगर (जे.एल. संख्या 92)
						(14) जाहोंगीरपुर (जे.एल. संख्या 88)
						(15) रुइपुकुर (जे.एल. संख्या 52)
					धुबुलिया	(16) पारमेदिया (जे.एल. संख्या 46)
						(17) मायाकोल (जे.एल. संख्या 47)
						(18) बाहादुरपुर (जे.एल. संख्या 50)
						(19) बनग्राम (जे.एल. संख्या 49)
						(20) चउगाछा हासाडांगा (जे.एल. संख्या 35)
						(21) धुबुलिया (जे.एल. संख्या 33)
						(22) गबरकुली (जे.एल. संख्या 19)
						(23) सिंघाटी (जे.एल. संख्या 20)
						(24) खाजुरी (जे.एल. संख्या 18)
						(25) घटेश्वर (जे.एल. संख्या 17)

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	मूखंड	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गाँव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
					नाकाशीपारा	(26) गाछा (जे.एल. संख्या 100)
					(27) भोलाडांगा (जे.एल. संख्या 74)	
					(28) दहकुला (जे.एल. संख्या 73)	
					(29) जुगपुर (जे.एल. संख्या 51)	
					(30) चाकाहातीसाला (जे.एल. संख्या 50)	
					(31) बेथुआडहरी (जे.एल. संख्या 49)	
					(32) खीदीरपुर (जे.एल. संख्या 48)	
					(33) जगदानंदपुर (जे.एल. संख्या 46)	
					(34) बामनडांगा (जे.एल. संख्या 24)	
					(35) साली (जे.एल. संख्या 25)	
					(36) विक्रमपुर (जे.एल. संख्या 6)	
					कालीगंज	(37) भागा (जे.एल. संख्या 63)
					(38) पद्याचौदपुर (जे.एल. संख्या 62)	
					(39) बनपलासी (जे.एल. संख्या 64)	
					(40) देवोग्राम (जे.एल. संख्या 60)	
					(41) ध्वजापुस्करिनी (जे.एल. संख्या 35)	
					(42) पानीघाटा (जे.एल. संख्या 36)	
					(43) जलकरजलमहल (जे.एल. संख्या 32)	
					(44) जामालपुर (जे.एल. संख्या 31)	
					(45) गोविंदपुर (जे.एल. संख्या 28)	
					(46) मिरा (जे.एल. संख्या 8)	
					(47) उत्तरहजरापोता (जे.एल. संख्या 6)	
					(48) पलासी (जे.एल. संख्या 4)	
3	अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) मुर्शिदाबाद जिला	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 184.584 कि.मी. से 295.000 कि. मी. तक।	मुर्शिदाबाद	(1) बहरमपुर	बेलडांगा	(1) लोकनाथपुर (जे.एल. संख्या 129)
						(2) मंगनपारा (जे.एल. संख्या 108)
						(3) रेजीनगर (जे.एल. संख्या 109)
						(4) टोकीपुर (जे.एल. संख्या 113)
						(5) रामनादादपुर (जे.एल. संख्या 114)
						(6) जलकर दादपुर (जे.एल. संख्या 115)
						(7) साधुखली (जे.एल. संख्या 118)
						(8) छातीयानी (जे.एल. संख्या 119)
						(9) मिर्जापुर (जे.एल. संख्या 64)
						(10) सरुलिया (जे.एल. संख्या 59)
						(11) बरुआ (जे.एल. संख्या 60)
						(12) झुका (जे.एल. संख्या 48)
						(13) महेशपुर (जे.एल. संख्या 31)
						(14) भाबता (जे.एल. संख्या 07)
						(15) गंगापुर (जे.एल. संख्या 09)
						(16) गोपीनाथपुर (जे.एल. संख्या 12)
						(17) महीषाशथली (जे.एल. संख्या 11)
						(18) अमरपुर (जे.एल. संख्या 122)

क्रम संख्या	सदाम प्राधिकारी	मूखंड	जिला	सामुहिक	मुस्तत नामा	गैरि का नाम
1	2	3	4	5	6	7
					बहरमपुर टाउन	(19) मधुबीनकर (जे.एल. संख्या 84) (20) मानकरा (जे.एल. संख्या 83) (21) बैरगाछी (जे.एल. संख्या 82) (22) कालतिया (जे.एल. संख्या 81) (23) बैलियाखारी (जे.एल. संख्या 80) (24) हरि दास माटी (जे.एल. संख्या 87) (25) बसुदेवखाली (जे.एल. संख्या 22) (26) औद्योगिक (जे.एल. संख्या 21) (27) गोपजान (जे.एल. संख्या 18) (28) गोयालजान (जे.एल. संख्या 15) (29) अराजी कुंवर पारा (जे.एल. संख्या 16) (30) फतेपुर (जे.एल. संख्या 06)
				(2)लालबाग	नक्काम	(1) दफारपुर (जे.एल. संख्या 116) (2) महदीपुर (जे.एल. संख्या 115) (3) मुकुंदपुर (जे.एल. संख्या 114) (4) शिवपुर (जे.एल. संख्या 113) (5) गोपग्राम (जे.एल. संख्या 88) (6) पामिया (जे.एल. संख्या 89) (7) नारायणपुर (जे.एल. संख्या 90) (8) पलसंडा (जे.एल. संख्या 46) (9) साजाइमाटी (जे.एल. संख्या 47) (10) दक्षिणग्राम (जे.एल. संख्या 48) (11) कानफला (जे.एल. संख्या 55) (12) अमर (जे.एल. संख्या 53) (13) चानक (जे.एल. संख्या 52) (14) इकरोल (जे.एल. संख्या 38) (15) सुकी (जे.एल. संख्या 39) (16) माहात्तो (जे.एल. संख्या 09) (17) आइरा (जे.एल. संख्या 08) (18) राईंडा (जे.एल. संख्या 87)
				(3)जंगीपुर	सागरदिधी	(1) पारुलिया (जे.एल. संख्या 95) (2) घामुआ (जे.एल. संख्या 77) (3) घुमारपाहार (जे.एल. संख्या 78) (4) गनेशबाटी चक (जे.एल. संख्या 76) (5) बेलसंडा (जे.एल. संख्या 75) (6) रतनपुर (जे.एल. संख्या 74) (7) जोतकमल (जे.एल. संख्या 73) (8) मेघा (जे.एल. संख्या 72) (9) सिहारा (जे.एल. संख्या 67) (10) रसबेलुरिया (जे.एल. संख्या 68) (11) बोखारा (जे.एल. संख्या 62) (12) तेलंगल (जे.एल. संख्या 61)

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूखंड	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गाँव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
						(13) बाहालनगर (जे.एल. संख्या 59)
						(14) मुरकुडा (जे.एल. संख्या 58)
						(15) सूर्यपुर (जे.एल. संख्या 57)
						(16) गंगाडडा (जे.एल. संख्या 31)
						(17) उदयनगर (जे.एल. संख्या 33)
						(18) शीतलपारा (जे.एल. संख्या 34)
						(19) नाचना (जे.एल. संख्या 07)
						(20) रामना शेख दिघी (जे.एल. संख्या 06)
						(21) अनुपपुर (जे.एल. संख्या 05)
						(22) चौंदपुरचक (जे.एल. संख्या 04)
					रघुनाथगंज	(23) विजयपुर (जे.एल. संख्या 133)
						(24) प्रसादपुर (जे.एल. संख्या 124)
						(25) काटनाई (जे.एल. संख्या 125)
						(26) कुलरी (जे.एल. संख्या 122)
						(27) मथुरापुर (जे.एल. संख्या 119)
						(28) सिमला (जे.एल. संख्या 120)
						(29) जापुर (जे.एल. संख्या 110)
						(30) तलाई (जे.एल. संख्या 118)
						(31) काँकुरिया (जे.एल. संख्या 113)
						(32) साधुआ (जे.एल. संख्या 112)
						(33) उमरपुर (जे.एल. संख्या 111)
						(34) घोरशाला (जे.एल. संख्या 98)
						(35) मंगलजान (जे.एल. संख्या 97)
						(36) गोदड़पुर (जे.एल. संख्या 03)
						(37) कानुपुर (जे.एल. संख्या 01)
						(38) श्रीकान्तबाटी (जे.एल. संख्या 114)
					सुति	(39) लोहरापारा (जे.एल. संख्या 111)
						(40) आकंबा (जे.एल. संख्या 109)
						(41) चौंदपुर (जे.एल. संख्या 108)
						(42) अजगरपारा (जे.एल. संख्या 107)
						(43) आहिरन (जे.एल. संख्या 102)
						(44) किशोरपुर (जे.एल. संख्या 45)
						(45) बामुहा (जे.एल. संख्या 46)
						(46) भैरवपुर (जे.एल. संख्या 47)
						(47) माहेसैल (जे.एल. संख्या 11)
						(48) भाबकी (जे.एल. संख्या 50)
						(49) मानिकपुर (जे.एल. संख्या 54)
						(50) दफाहाट (जे.एल. संख्या 56)
						(51) गागीपुर (जे.एल. संख्या 07)
						(52) जलंगापारा (जे.एल. संख्या 101)
						(53) सादिकपुर (जे.एल. संख्या 92)

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूखंड	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गाँव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
					समशेरगंज	(54) धुसारीपारा (जे.एल. संख्या 104)
						(55) बासुदेवपुर (जे.एल. संख्या 81)
						(56) चाचंडा (जे.एल. संख्या 82)
						(57) जय कृष्णपुर (जे.एल. संख्या 85)
						(58) कोहेथपुर (जे.एल. संख्या 84)
						(59) काँकुरिया (जे.एल. संख्या 88)
						(60) घोरामारा (जे.एल. संख्या 68)
						(61) रतनपुर (जे.एल. संख्या 67)
						(62) मालचो (जे.एल. संख्या 66)
						(63) अनुपनगर (जे.एल. संख्या 90)
						(64) जाफराबाद (जे.एल. संख्या 89)
					फाराक्का	(65) महादेव नगर (जे.एल. संख्या 63)
						(66) मामरेजपुर (जे.एल. संख्या 62)
						(67) जिगरी कुलगाछी (जे.एल. संख्या 94)
						(68) शंकरपुर (जे.एल. संख्या 61)
						(69) भवानीपुर (जे.एल. संख्या 59)
						(70) अनुपपुर (जे.एल. संख्या 18)
						(71) आलाइपुर (जे.एल. संख्या 19)
						(72) बल्लालपुर (जे.एल. संख्या 49)
						(73) जफरगंज (जे.एल. संख्या 47)
						(74) फतेपुर (जे.एल. संख्या 46)
						(75) साहानगर (जे.एल. संख्या 45)
						(76) काशीनगर (जे.एल. संख्या 44)
						(77) चौकी (जे.एल. संख्या 41)
						(78) श्रीमंतपुर (जे.एल. संख्या 36)

[ फा. सं. भारराप्रा/तक./भू.अ./रा.रा.-34/पी.आई.यू.-कृष्णगर/2008 ]

प्रभाकर, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

**S.O. 3050(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), and in supersession of the notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1141(E) dated the 15<sup>th</sup> May, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with the effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of the land specified in the corresponding entry in column(3) of the said Schedule relating to districts, taluks, police stations and villages mentioned in columns (4),(5),(6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No. 34 in the State of West Bengal .

## SCHEDULE

## Land Acquisition on National Highway No. 34 in the State of West Bengal

Serial number	Competent authority	Stretch of land	District	Taluk	Police Station	Name Of Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate (Land Acquisition), North 24 Parganas District	Km 31.000 to Km 48.533 on NH-34	North 24 Parganas	Barasat	Amdanga	(1) Mirhati (JL No. 66) (2) Kamdebpur (JL No. 65) (3) Sonadanga (JL No. 64) (4) Khalia (JL No. 63) (5) Khandasarkara (JL No. 61) (6) Arkhali (JL No. 62) (7) Amdanga (JL No. 48)



1	2	3	4	5	6	7
						(8) Raypur (JL No. 50)
						(9) Rafipur (JL No. 49)
						(10) Rahana (JL No. 47)
						(11) Uludanga (JL No. 26)
						(12) Sadhanpur (JL No. 25)
						(13) Hisabi (JL No. 24)
						(14) Jirat (JL No. 23)
						(15) Adhata (JL No. 20)
						(16) Kaipukharia (JL No. 19)
						(17) Urala (JL No. 17)
						(18) Kanchiara (JL No. 16)
						(19) Mahadebpur (JL No. 12)
						(20) Pashardanga (JL No. 10)
						(21) Harbati (JL No. 9)
						(22) Rajberia (JL No. 8)
						(23) Dhania (JL No. 11)
						(24) Baikunthapur (JL No. 7)
						(25) Madampur (JL No. 12)
					Habra	(26) Pabdara (JL No. 4)
						(27) Trailakshyapur (JL No. 3)
2	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Nadia District	Km 48.533 to Km 164.584 on NH-34	Nadia	1 Kalyani	Haringhata	(1) Jaguli (JL No. 53)
						(2) Dakshin Brahmapur (JL No. 60)
						(3) Santoshpur (JL No. 56)
						(4) Mobarakpur (JL No. 57)
						(5) Laupala (JL No. 43)
						(6) Kapileswar (JL No. 54)
						(7) Digha (JL No. 55)
						(8) Haringhata Farm (JL No. 90)
						(9) Simhat (JL No. 45)
						(10) Ganguria (JL No. 44)

1	2	3	4	5	6	7
						(11) Muragachha (JL No. 8)
						(12) Balindi (JL No. 7)
						(13) Ayespur (JL No. 9)
						(14) Narayanpur (JL No. 10)
						(15) Birahi (JL No. 4)
						(16) Chandirampur (JL No. 5)
					Chakdaha	(17) Narapatipara (JL No. 103)
						(18) Jatrapur (JL No. 110)
						(19) Rautari (JL No. 109)
						(20) Maheswarpur (JL No. 112)
						(21) Tantgachhi (JL No. 113)
						(22) Khorgachhi (JL No. 115)
						(23) Uttarpachpota (JL No. 120)
						(24) Joy Krishnapur (JL No. 31)
						(25) Chhatimtala (JL No. 19)
						(26) Lalpur (JL No. 20)
						(27) Punglia (JL No. 14)
						(28) Palagachha (JL No. 13)
						(29) Tatla (JL No. 12)
						(30) Chandrapur (JL No. 6)
						(31) Mahanala (JL No. 7)
				(2) Ranaghat	Gangnapur	(1) Ghatigachhi (JL No. 164)
						(2) Patuli (JL No. 151)
						(3) Dayabari (JL No. 152)
					Ranaghat	(4) Nasra (JL No. 156)
						(5) Ranaghat (JL No. 155)
						(6) Aistala (JL No. 114)
						(7) Habibpur (JL No. 116)
						(8) Doharpar (JL No. 6)

1	2	3	4	5	6	7
					Santipur	(9) Goalpara (JL No. 72)
						(10) Udaypur (JL No. 73)
						(11) Nabala (JL No. 74)
						(12) Belgaria (JL No. 57)
						(13) Sukpukuria (JL No. 58)
						(14) Beharia (JL No. 50)
						(15) Ghoralia (JL No. 47)
						(16) Kadampur (JL No. 59)
						(17) Bathna (JL No. 45)
						(18) Kandakhola (JL No. 43)
						(19) Chhota Ranaghat (JL No. 46)
						(20) Gobindapur (JL No. 32)
						(21) Panch Potta (JL No. 33)
						(22) Bagdia (JL No. 34)
						(23) Bathangachhi (JL No. 35)
				(3) Krishnagar	Krishnagar	(1) Chakchapara (JL No. 79)
						(2) Jeolgari (JL No. 80)
						(3) Dignagar (JL No. 83)
						(4) Hatisala (JL No. 81)
						(5) Chapradignagar (JL No. 82)
						(6) Senpur (JL No. 119)
						(7) Itla (JL No. 85)
						(8) Chakdignagar (JL No. 118)
						(9) Durgapur (JL No. 117)
						(10) Dakshin Jhikipota (JL No. 116)
						(11) Baruihuda (JL No. 91)
						(12) Paschim Bhatjangla (JL No. 90)
						(13) Krishnagar (JL No. 92)
						(14) Jahangirpur (JL No. 88)
						(15) Ruipukur (JL No. 52)

1	2	3	4	5	6	7
					Dhubulia	(16) Parmedia (JL No. 46)
						(17) Mayakol (JL No. 47)
						(18) Bahadurpur (JL No. 50)
						(19) Bangram (JL No. 49)
						(20) Chaugachha Hasadanga (JL No. 35)
						(21) Dhubulia (JL No. 33)
						(22) Gabarkuli (JL No. 19)
						(23) Singhati (JL No. 20)
						(24) Khajuri (JL No. 18)
						(25) Ghateswar (JL No. 17)
					Nakashipara	(26) Gachha (JL No. 100)
						(27) Bholadanga (JL No. 74)
						(28) Dahakula (JL No. 73)
						(29) Jugpur (JL No. 51)
						(30) Chakahatisala (JL No. 50)
						(31) Bethuadahari (JL No. 49)
						(32) Kshidirpur (JL No. 48)
						(33) Jagadanandapur (JL No. 46)
						(34) Bamandanga (JL No. 24)
						(35) Sali (JL No. 25)
						(36) Bikrampur (JL No. 6)
					Kaliganj	(37) Bhaga (JL No. 63)
						(38) Pachachandpur (JL No. 62)
						(39) Banpalasi (JL No. 64)
						(40) Debogram (JL No. 60)
						(41) Dhvajapushkarini (JL No. 35)
						(42) Panighata (JL No. 36)
						(43) Jalkarjalmahal (JL No. 32)

1	2	3	4	5	6	7
						(44) Jamalpur (JL No. 31)
						(45) Gobindapur (JL No. 28)
						(46) Mira (JL No. 8)
						(47) Uttarhajrapota (JL No. 6)
						(48) Palasi (JL No. 4)
3	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Murshidabad District	Km 164.584 to Km 295.000 on NH-34	Murshidabad	1. Berhampore	Beldanga	(1) Loknathpur (JL No. 129)
						(2) Manganpara (JL No. 108)
						(3) Rejinagar (JL No. 109)
						(4) Tokipur (JL No. 113)
						(5) Ramnadadpur (JL No. 114)
						(6) Jalkar Dadpur (JL No. 115)
						(7) Sadhukhali (JL No. 118)
						(8) Chhatiani (JL No. 119)
						(9) Mirzapur (JL No. 64)
						(10) Sarulia (JL No. 59)
						(11) Barua (JL No. 60)
						(12) Jhunka (JL No. 48)
						(13) Maheshpur (JL No. 34)
						(14) Bhabta (JL No. 07)
						(15) Gangapur (JL No. 09)
						(16) Gopinathpur (JL No. 12)
						(17) Mahishasthali (JL No. 11)
						(18) Amarpur (JL No. 122)
					Berhampore Town	(19) Mathbinkar (JL No. 64)
						(20) Mankara (JL No. 63)
						(21) Baigachhi (JL No. 82)
						(22) Chaltia (JL No. 81)
						(23) Beliakhari (JL No. 88)
						(24) Hari Das Mati (JL No. 87)
						(25) Basudebkhali (JL No. 22)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
						(10) Rasbehuria (JL No. 68)
						(11) Bokhara (JL No. 62)
						(12) Telangal (JL No. 61)
						(13) Bahalnagar (JL No. 59)
						(14) Bhurkunda (JL No. 58)
						(15) Surjypur (JL No. 57)
						(16) Gangadda (JL No. 31)
						(17) Udaynagar (JL No. 33)
						(18) Sitalpara (JL No. 34)
						(19) Nachna (JL No. 07)
						(20) Ramna Sekh Dighi (JL No. 06)
						(21) Anuppur (JL No. 05)
						(22) Chandpurchak (JL No. 04)
					Raghunathganj	(23) Bijaypur (JL No. 133)
						(24) Prasadpur (JL No. 124)
						(25) Katnai (JL No. 125)
						(26) Kulri (JL No. 122)
						(27) Mathurapur (JL No. 119)
						(28) Simla (JL No. 120)
						(29) Jarur (JL No. 110)
						(30) Talai (JL No. 118)
						(31) Kankuria (JL No. 113)
						(32) Sadhua (JL No. 112)
						(33) Umarpur (JL No. 111)
						(34) Ghorsala (JL No. 98)
						(35) Mangaljan (JL No. 97)
						(36) Godaipur (JL No. 03)
						(37) Kanupur (JL No. 01)
						(38) Srikantabali (JL No. 114)
					Suti	(39) Loharapara (JL No. 111)

1	2	3	4	5	6	7
						(40) Akamba (JL No. 109)
						(41) Chandpur (JL No. 108)
						(42) Ajagarpara (JL No. 107)
						(43) Ahiran (JL No. 102)
						(44) Kishorpur (JL No. 45)
						(45) Barnuha (JL No. 46)
						(46) Bhairabpur (JL No. 47)
						(47) Mahesail (JL No. 11)
						(48) Bhabki (JL No. 50)
						(49) Manikpur (JL No. 54)
						(50) Dafarhat (JL No. 56)
						(51) Gagipur (JL No. 07)
						(52) Jalangapara (JL No. 101)
						(53) Sadikpur (JL No. 92)
					Samsorganj	(54) Dhusharipara (JL No. 104)
						(55) Basudebpur (JL No. 81)
						(56) Chachanda (JL No. 82)
						(57) Jay Krishnapur (JL No. 85)
						(58) Kohethpur (JL No. 84)
						(59) Kankuria (JL No. 88)
						(60) Ghoramara (JL No. 68)
						(61) Ratanpur (JL No. 67)
						(62) Malancha (JL No. 66)
						(63) Anup Nagar (JL No. 90)
						(64) Jafraabad (JL No. 89)
					Farakka	(65) Mahadeb Nagar (JL No. 63)
						(66) Mamrejpur (JL No. 62)
						(67) Jigri Kulgachhi (JL No. 94)
						(68) Sankarpur (JL No. 61)
						(69) Bhabanipur (JL No. 59)



1	2	3	4	5	6	7
						(70) Anuppur (JL No. 18)
						(71) Alampur (JL No. 19)
						(72) Ballapur (JL No. 49)
						(73) Jafarganj (JL No. 47)
						(74) Fatepur (JL No. 46)
						(75) Sahanagar (JL No. 45)
						(76) Kasinagar (JL No. 44)
						(77) Chouki (JL No. 41)
						(78) Srimantapur (JL No. 36)

[E. No. NHAI/Tech./LA/NH-34/PIU-Krishnagar/2008]

PRABHAKAR, Dy. Secy.